

Vol. 226  
No. 3



Monday  
13 August, 2012  
22nd Sravana, 1934 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES  
**RAJYA SABHA**  
OFFICIAL REPORT  
CONTENTS

- Felicitations to the Chairman (page 1-22)
- Felicitations to Indian Sportspersons, who won medals at London Olympics, 2012 (page 22)
- Written Answers to Starred Questions (page 22-52)
- Written Answers to Unstarred Questions (page 53-345)
- Papers Laid on the Table (page 346)
- Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Finance - *Laid on the Table* (page 347)
- Motion for Electric to the Joint Committee on Officers of Profit - Adopted (page 347-48)
- Matter raised with permission—
- Issue of Black money and corruption in public life (page 348-358)
- Government Bill—
- The National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore, Bill, 2011-*Passed* (page 358-361, 61-406)
- The Armed Forces Tribunal (Amendment) Bill, 2012- *Introduced* (page 361)

©  
RAJYA SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

PRICE : **Rs. 50.00**

Special Mention—

Demand for taking steps to achieve 100 per cent target of institutional births in country (page 406)

Demand for extending pre-matric scholarship scheme to students belonging to poor sections of Hindi community in Country (page 407-8)

Demand for restoring autonomy of Panchayati Raj institutions in Uttar Pradesh (page 408)

Demand for setting up early warning system for accurate predictions of Tsunami, Earthquakes and weather in the Country (page 408-9)

Demand for providing adequate relief measures for Uttarkashi district of Uttarakhand affected by landslides and heavy rains (page 409)

Demand for giving compensation to people affected by lightning and cloud bursts in various parts of Country (page 409-10)

Website Address : <http://rajyasabha.nic.in>  
<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail Address : [rsedit-e@sansad.nic.in](mailto:rsedit-e@sansad.nic.in)

---

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF  
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA) AND PRINTED BY  
SHREE GANESH ASSOCIATES, MAUJPUR, DELHI-110053

## RAJYA SABHA

*Monday, 13th the August, 2012/22nd Saravana, 1934 (Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR CHAIRMAN, in the chair

### **FELICITATIONS TO HON. MR. CHAIRMAN ON SECOND TERM**

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, it is my proud privilege and a great honour to felicitate you as you begin your second term as the Vice-President of India and Chairman of the august House. Mr. Chairman, Sir, in you we have a distinguished personality who has served the country in diverse fields of diplomacy. In you, we have a person of great distinction who has presided over the Aligarh Muslim University and in all that has been given to you, you have served our country with great distinction. In the last five years, we have had the enormous good fortune to proceed on the basis of guidance that you have provided for the deliberations in this House. That you have been chosen for the second term to preside over this august House is a tribute to your qualities of head and heart. I, therefore, take this opportunity to felicitate you and to assure you that our Government will extend to you the fullest possible cooperation in smooth functioning of the House and we sincerely hope that your guidance will be a sovereign influence over the deliberations of this august House. Thank you.

LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Chairman, Sir, I join the hon. Prime Minister in felicitating you on your reelection as the Vice-President of the Union. As the Prime Minister pointed out, you had a record of public service before you assumed this Office five years ago. Your experience in public diplomacy, your experience as an academic and in other fields of public service, enabled this country to make a choice and have you to adorn this high office. Your reelection is a reaffirmation of the fact that your presence in this Office adds to the dignity of the Office itself. It is a privilege for us to have you as the Chairperson of this House. This House, as also the Indian Parliament, in itself is a mahout. It requires both art and science in administering and running this House.

You have to make space for Governmental Business; you have to make space for other expressions of public-interest. You can show us the Rule Book, but you can also avail of the flexibility that the Rule Book provides to you so that every kind of opinion finds space in the House itself rather than leading to a deadlock. When a person with a bureaucratic, diplomatic and academic experience adorns this office, we had wondered what his accessibility would be. In fact, your strength has been your accessibility to the Members. I have seen you function in the last five years. In a lighter vein, I can say that there are two Zero Hours; one in the House and the other which the Members can avail in your Chamber because if somebody does not get an opportunity to express himself, he has access to your Chamber and can express himself very easily there.

Your experience, as I said, in public diplomacy, even when you adorn this high Office, is a great opportunity for this nation to avail of your services internationally. On a personal note, the quality that I have admired always, besides your ability to ease tensions, I follow and read each one of the speeches that you deliver. My own inquiries have revealed that you prepare the drafts yourself, and I must confess that these are, in contemporary times, some of the best recorded documents on various subjects that I have come across. It is an honour, once again, to have you as the Chairperson of this House for the next five years, and it is a privilege for this country that you adorn this high Office because you add to the dignity of this Office.

**श्री ब्रजेश पाठक** (उत्तर प्रदेश): सर, आज भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में, इस सदन के सभापति के रूप में, हम सब की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आपने पूरी दुनिया में अनुभव लेने के बाद, पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाढ़ने के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये और उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्य सभा के सभापति के रूप में, सदन का कुशलपूर्वक संचालन किया, इसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। जैसा कि अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं को समानता से लेते हुए, सबको अपनी बात कहने का मौका देने का काम आपने जिस कुशलता के साथ किया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इस मौके पर हम आपका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सदन के अंदर और देश के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी भूमिका भारत के इतिहास में नये पन्नों को जोड़ने का काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।

**SHRI PRASANTA CHATTERJEE** (West Bengal): Respected Chairman, Sir, on behalf of my party, the Communist Party of India (Marxist), join the felicitation and congratulate you sincerely on being re-elected as the Vice President of India.

You have worked in different capacities here as well as abroad, and thus, have a wide experience. Furthermore, it is a matter of great pleasure for all of us to

have you once again in the Chair of the Chairman, Rajya Sabha, the House of Elders.

Sir, the entire country considers Parliament as a very sacred institution. People, particularly, the downtrodden people, poorest of the poor section of the people, have many aspirations towards this august House. We, the Members, are duty-bound to raise their problems on the floor to seek a solution.

Sir, even after sixty-five years of independence, the country is facing thousand-and-one problems like poverty, re-employment, unemployment, closure of factories, etc., etc. The black money is ruling the economy. In one word, the people of India are living in a horrible condition. As I said, earlier, we, the Members of this august House, are duty-bound to raise the issue of the people so that we bring about effective changes in their socio-economic conditions. I believe, Sir, as the Chairman of this august House, you will continue to remain the custodian of Indian democracy, that you will help people to be heard, that you will exert yourself to bring consensus amongst different political parties on the basis of principle of justice to the people.

With these words, I once again congratulate you, Sir.

**श्री शिवानन्द तिवारी** (बिहार): सर, मैं भी आपको दुबारा उपराष्ट्रपति चुने जाने पर मुबारकबाद और बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि प्रधान मंत्री जी और लीडर ऑफ द आपोजिशन ने जो उद्गार व्यक्त किया, जिस तरह की भावनाओं को व्यक्त किया, मेरी भी कुछ वैसी ही भावना है, लेकिन मेरे पास उस तरह की भाषा और क्षमता नहीं है कि मैं उस तरह से अपनी बात को व्यक्त कर सकूँ। सर, पिछले साढ़े चार वर्षों से, जब से मैं इस सदन का सदस्य बना हूँ, मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी है, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वह आपकी सहजता और आपकी नम्रता है। जिस सहज भाव से आप एक-एक साधारण सदस्य से, यानी हमारे जैसे सदस्य से भी आप जिस तरह से आप मिलते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे पूरा यकीन है कि जो दूसरा चरण आपके इस हाउस के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति बनने का है, वह उसी तरह से उज्ज्वल और निष्कलंक रहेगा, जैसे आपकी पहली पारी थी। इसी के साथ मैं फिर से आपको मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

**SHRI DEREK O'BRIEN** (West Bengal): Sir, , particularly, would like to congratulate you, and I feel deeply privileged to do this on behalf of the people of West Bengal and the All India Trinamool Congress and its Chairperson, Ms. Mamata Banerjee, and, beyond that, at a personal level because it is widely known that you went to a Jesuit Institution in Kolkata, of which I also had the privilege of going to. May be, you took your moral science classes there very seriously because moral science in Jesuit institutions taught you about the second coming, and you have

made that a reality a few days ago by being elected Vice-President for a second time. Sir, when you reach a great milestone, you also become an honourable quiz question and yours is very hon. quiz question because you are also the only second Vice-President, as is well-known, after Dr. S. Radhakrishnan, to do the honours second time around, and talking about the Kolkata connection, Dr. S. Radhakrishnan, like you, also had a Kolkata connection. You studied in St. Xavier's, and he was, in the 1920s, a Professor of Philosophy at that same great Institution. Sir, we wish you health, we wish you happiness, and, as we get to know you better, as many of my colleagues also know, we wish you really well, and I would like to leave you with the thoughts of the great poet who said, and, as we all have heard this before, "Where the mind is without fear and the head is held high." Thank you. Sir, and Good Luck.

**प्रो० राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, भारत के दुबारा उपराष्ट्रपति बनने पर मैं आपको अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। महोदय, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में थे, तब से मैंने आपको अपने मित्रों के जरिए जाना और आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाइयों को सुना और देखा। इसके बाद मैं राज्य सभा में सभापति के रूप में पिछले दिनों से आपको देख रहा हूँ। यह सही है कि दर्जनों राजनैतिक दल यहां पर हैं।

यहां अलग-अलग मसलों पर अलग-अलग विचार होते हैं। कई बार किसी भी बिन्दू पर सर्वसम्मति और सहमति होना, नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से कई बार सदन को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके सामने भी आए दिन इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते, मैं आप से यह प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि यहां कभी-कभी जो सदस्य मामला उठाते हैं, उनके **political compulsions** होते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जिनको उठाना उनके लिए जरूरी होता है। यदि अनुमति नहीं मिलती है तो इसके बाद भी उठाने की कोशिश की जाती है। वे **deliberately** चेयर को न अपमानित करना चाहते हैं, न चेयर का असम्मान करना चाहते हैं। सभी सदस्यों के मन में चेयर के प्रति अपार सम्मान और स्नेह है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब इस तरह की बात हो जाती है, लोगों को वेल में भी जाना पड़ता है, हाउस को डिस्टर्ब भी करना पड़ता है और शोर भी मचाना पड़ता है। इन चीजों को लेकर, मेम्बर्स के बारे में आप कोई धारणा न बनाएं और आपने ऐसी कोई धारणा नहीं बनाई है, यह बहुत अच्छी चीज है। कोई सदस्य **deliberately** ऐसा नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल दृष्टि से जब तक बहुत आवश्यक नहीं होता तब तक कोई सदस्य इस तरह का काम नहीं करता। अगर मेम्बर के जरिए, इस तरह का कोई एक्शन होता है तो उसको **otherwise** न लें, यह मेरी आप से प्रार्थना है।

जैसा कि सभी लोगों ने बताया है कि आपने पिछले पांच वर्षों में मेम्बर्स को तबज्जोह दी है और उनकी बातों को सुना है। आपने यहां भी सभी की बातें सुनी हैं और जब हम आपके साथ अंदर बैठते हैं, वहां भी सुनी हैं। जब भी किसी सदस्य ने आप से मिलना चाहा,

आपने अपने चेम्बर में उससे मुलाकात की और उसकी समस्याओं को सुना है और उसका निदान करने की कोशिश की है। यह एक बहुत अच्छी चीज है। डेमोक्रेसी में लोगों की बातों को सुनना और सुन कर, अगर कोई राहत देने का काम करता है, तो यह बहुत बड़ी चीज है। डेमोक्रेसी की सफलता के लिए यह आवश्यकता भी है। मैं आपको, आपकी इन अच्छाइयों के लिए और आपके विशाल हृदय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी कामना है कि आप न केवल इस पद पर बल्कि आने वाले वक्त में देश के सबसे बड़े पद पर भी पहुँचने में सफल हों, सदस्यों की भी यही भावनाएं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SHIVA (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, it is indeed privilege and honour for me to felicitate you, on behalf of my party, the DMK, and our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, on your assuming the Vice-President's Office for a second term. Sir, you are a person of high calibre and constructive statesmanship on whom the people hold in high esteem. You possess indefatigable industry and your varied visions have impressed us a lot in the last five years when you were chairing this august House.

Sir, you are a person of intellectual refinement. We have also admired the subtlety of the distinctions you have drawn. Holding the dignity of this Office very high, Sir, you have extended a friendly hand to all the people you have come across, to Members and all others. I should say, Sir, we have enjoyed you in the Chair. You are always innovative. Your vocabulary has impressed us a lot. One day, when a supplementary question extended to a longer time, you immediately intervened and said, "Supplementary question opportunity is only a window and not an elephant gate." So, that gave a very good definition for 'supplementary questions'.

Sir, as my colleague, Shri Derek, pointed out here, you are the only second person, next to Dr. Radhakrishnan, holding the office of Vice President for the second term. You, as well as him, are a teacher because we have learnt some good manners from you without your knowledge. Sir, by way of observing you, we have inherited some good manners, and when I have practised it outside, it has won me some credit.

Sir, in the coming years, under your Chairmanship, this august House will witness many more interesting days. Sir, with these words, once again, I congratulate you wholeheartedly on behalf of my Party. This is a very good opportunity, and I wish that you will tread the path of Dr. Radhakrishnan in all aspects. Thank you very much, Sir.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): सभापति जी, मैं अपनी और अपनी पार्टी एन.सी.पी. की ओर से आपको उपराष्ट्रपति और इस सदन के अध्यक्ष बनने की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सदन के नेता प्रधान मंत्री जी, विपक्ष के नेता और अन्य तमाम लोगों ने आपका जिस प्रकार से



अभिनन्दन किया है, स्वागत किया है, मैं अपने आपको उस भावना से जोड़ते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको जब भी, जो भी जिम्मेदारी मिली, चाहे वह एक शिक्षक के रूप में मिली हो, एक डिप्लोमेट के रूप में मिली हो, वाइस चांसलर के रूप में मिली हो, माइनोंरिटी कमीशन के चेयरमैन के रूप में मिली हो या फिर इस सदन के अध्यक्ष के रूप में हो, आपने उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। जैसा कि लोगों ने कहा कि आपकी सादगी, आपकी सरलता ने सही मायनों में इस सदन के अंदर भी और बाहर भी सभी लोगों को प्रभावित किया है। मैं सोचता हूँ कि शायद आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक बार फिर आपका अध्यक्ष के रूप में अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह एक मौका है कि मैं अल्लामा इक़बाल का यह शेर, जो एक बहुत ही मशहूर शेर है, इस सदन में पढ़ूँ कि "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर पे पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, कि बता तेरी रजा क्या है।" मैं समझता हूँ कि यह शेर आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपने जिस तरह से नीचे से ऊपर तक पहुंचने में अपनी सलाहियों की नुमाइंदगी की है, उसको दिखाया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोगों ने बताया है कि डॉ. राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं, जिसको यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपका अभिनन्दन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Mr. Chairman, Sir, I congratulate you on behalf of my Party, Biju Janata Dal for your re-election to the second-highest position of this country, *i.e.*, the Vice President of India.

Sir, again you are adorning the Chair of this august House for the second term. Sir, your distinguished career as an outstanding academician and distinguished diplomat has earned praise from all quarters of Indian society. The way you conducted this august House and allowed us to raise various issues concerning the life of the people of this country is quite admirable. I hope your second term as the Vice-President of India will add new chapters in your illustrious career and will raise you to the supreme height of this country's position. Thank you.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Respected Chairman, Sir, on behalf of my party, All India Anna DMK and on my personal behalf, I extend a warm felicitations to you on your re-election as the Vice-President of this great country. In fact, you have the rare honour of being elected again nearly about four decades after Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Some are born great, some achieve greatness and greatness is thrust on some. In fact, we can count very few people who are born great in this world. Greatness is thrust on so many people regardless of the fact whether they deserve it or not. But among those who achieve greatness in their lifetime, you are definitely one among them by your sheer hard work, dedication and performance. In a lighter vein I can say from among all Members here, I have the unique distinction of being suspended for a day from this House by you. In your

first inning in the last five years, you have introduced very many changes in the working pattern of this House. As you start your second inning, I urge you to consider giving more time and space for the regional parties and the smaller groups. In fact, now so many people are talking about non-Congress, non-BJP, dispensation. Here also have that in view and please give us more attention and time. Thank you very much.

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of Telugu Desam Party and my colleagues, I congratulate you on this occasion. I am not new to politics but I am a new Member in this House. You are always encouraging me and my party Members, Sir. Whenever we do not find any time in the House, you were always available and with your guidance we are able to function as good parliamentaries in this House. Once again, I congratulate you and hope that you will continue the same tradition in this term also. Thank you, Sir.

नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): जनाब चेयरमैन साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात नेशनल काँग्रेस की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ-साथ एक शेर भी आपको सुना देता हूँ।

"हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है  
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।"

यही उम्मीद हम सबको है। अल्लाह ने आपको इस कुर्सी पर फिर से पहुंचाया, उसकी जरूर कोई मंशा होगी। जो मुश्किलात इस वतन को आगे आने वाले हैं, आप इसको जरूर उन राहों से निकाल लेंगे।

साथ-साथ, मैं आपसे और इस सदन के लोगों से यह भी कहूंगा कि मैंने आपको बहुत closely देखा है, जब आप युनाइटेड नेशंस में हमारे एम्बेसेडर थे। मैंने आपको देखा, जब आप साऊदी अरब में एम्बेसेडर थे, ईरान में थे। फिर आप वाइस चांसलर बने उस यूनिवर्सिटी के, जिनमें कभी भी आराम नहीं आता था, मगर किस खुशनूदी से आपने बच्चों को भी और एकेडमी को भी सीधा चलाया। मैं वह कभी भूल नहीं सकता।

मैं अपनी तरफ से और हम सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वे आपको सेहत बरख्शे और जैसा कि वज़ीरे आजम, **Leader of the Opposition** और बाकी सब ने कहा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो पांच साल गुज़रें, इसमें भारत को और भी बेहतर तौर से आगे ले जाने में आप मदद करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री रविशंकर प्रसाद (बिहार): माननीय सभापति जी, आपके दोबारा निर्वाचन पर आपका हृदय से अभिनन्दन। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, विपक्ष के नेता और अन्य सभी सम्मानिय नेताओं की भावनाओं से स्वयं को जोड़ता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस हाऊस का मेम्बर सन्

2000 से हूँ। आपके पूर्ववर्ती चेयरमैन साहब को देखने का मौका भी मुझे मिला। 2007 में जब आप आए, तो आपको शिक्षाविद के रूप में व्यापक राजनीतिक और राजनयिक अनुभव की जानकारी तो थी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति पद की अपनी एक गरिमा होती है। साथ ही साथ इस हाउस के संचालन में जहां बहस है और सम्वाद है, वहीं कोलाहल और उत्तेजना भी है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। जहां राजनीतिक मुद्दों पर विचारों की विभिन्नता होगी, तो तकराव भी होगा, लेकिन, क्षमा करेंगे, बिना किसी व्यापक राजनीतिक अनुभव के भी इस सबके बीच आपकी जो सहजता दिखी, उससे इस हाऊस के संचालन में आपने एक नयी गरिमा प्राप्त की है, जिसके लिए हम आपका विशेष अभिन्नदन करना चाहते हैं।

मैं एक स्पीकर साहब के पूर्व के अनुभव पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे रूल्स नहीं मालूम हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सदस्य जो कह रहे हैं, यह विषय उठाना चाहिए। इसी का अहसास हम लोगों को आपके आचरण में भी दिखाई पड़ा।

माननीय तारिक अनवर साहब ने जो शेर पढ़ा, "खुदा बन्दे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है", यह तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन सर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने सांसदों को कम से कम इस बात का अहसास दिला दिया कि "बता तेरी रज़ा क्या है", और उनको अपनी बात उठाने का मौका दिया। आपकी यही सहजता बनी रहे, आप और यशस्वी बनें, इस सदन की गरिमा और बढ़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Sir, thank you for having given me the opportunity to participate on this memorable day of this House. As nominated Members, we are used to being silent spectators most of the time, but my colleagues and am deeply honoured that we have been recognised for a particularly memorable and historical function, and that is, to congratulate you on your re-election as the Vice-President of India and as the Chairman of this august House. The eulogies by Hon. Members across this great House of elders, reflect what the each of us feel proud about. As some hon. Members have mentioned, there are a lot of occasions when there are disturbances, there are disruptions of the proceedings and there is distress, but you have dealt with them on every occasions with firmness, with your smile, and over a period of time we have comprehended the constant undercurrents of courtesy and fairness that you have spread amongst us, which makes many of us realise that these event don't have to be taken lightly. I have had the privilege of having known you, Sir, even before you became the Vice President of India; our intraction have been a great personal privilege to me. As nominated members we are aware of the proceedings and precedence but we have not gone unrecognised. We may not have risen to speak on all occasions but in our silence, we have admired you, we have shared in your happinesses as well as your anguishes. We will continue to do so in the future. It is a great privilege to be a part of this House. As s hon. Member said that this House represents the highest panchayat of this

country; therefore, to have unanimity and on all issues agreement would be unusual. However, we are going through a very difficult time in the history of our nation and people look upon this House and, Sir, your leadership to guide the ship through the choppy water in a manner which brings relief to our people and we continue to hold our head high as you lead and guide this august House. God bless you and good luck!

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Respected Chairman, my Party and I join the entire House to congratulate you, to greet you on your re-election as the Vice-President of India, thereby the Chairman of this august House.

Sir, your contributions as a diplomat and as an academician are quite known and they are all extremely commendable.

Sir, in your last term, as Chairman of this House, you tried to experiment many innovative ideas. In fact, you tried to take some initiatives to run the House in a more productive way. In the current tenure also, I hope you will try such ways and means to run the House in a more productive way, and also ensure a fair deal to all the Members, all the Parties and all groups. I do agree with hon. Leader of the Opposition when he said, 'Some of your speeches and writings on various subjects outside this House are quite enlightening and we do quote your writings and speeches on many occasions.' That is your real strength and this strength will continue to help you in running this House also.

I wish all the best to you and I join the entire House to congratulate you, to greet you. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Birendra Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I, on behalf of my Party, *Asom Gan Parishad*, like to congratulate you for your re-election to the Post of Vice-President of our great country.

Sir, you are not only a successful diplomat, a successful academician, but you are equally very successful as a neutral cricket umpire also. Sir, we have seen from our experience—this was reflected in our House also—that you are very neutral to run this House. Sir, I am very honoured to say that we are very proud to have a person like you as Chairman of this distinguished House.

Sir, I must admit one thing that you are very much concerned about the

problem of North- Eastern Region and whenever we raise the issue of North-Eastern Region, you always permitted us. Equally, Sir, you are very much concerned about the small parties also. You have always given priority to small parties also.

Sir, I have complete confidence in you and I believe, like in the past, in future also, we will get your support and cooperation. I, on behalf of my Party, congratulate you once again. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Prem Chand Gupta.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (बिहार): मान्यवर, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी की तरफ से मैं आपको दोबारा भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति चुने जाने के उपलक्ष्य में आपको बहुत-बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। मान्यवर, जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने और मेरे दूसरे साथियों ने आपकी कार्यकुशलता के विषय में बात की, आपकी परमिशन से मैं भी कुछ इस बारे में बोलना चाहूंगा।

मान्यवर, जब पहली बार आपका चुनाव भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में हुआ था, तब हम लोगों में एक चर्चा उठायी थी कि इस हाउस में देश के कोने-कोने से सदस्य चुनकर आते हैं और उनकी अपनी समस्याएँ हैं, देश के हर कोने की अपनी समस्याएँ हैं। क्योंकि, उपराष्ट्रपति इस हाउस के चेयरमैन होते हैं, इस हाउस के चेयरमैन होने के नाते और क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है, वह डिप्लोमेटिक कैरियर से है, शिक्षा से है और ब्यूरोक्रेसी से रहा है, तो हम लाग आपस में बात करते थे कि किस तरह से अंसारी साहब ऐसी स्थिति को, इस हाउस में कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन, जिस कार्यकुशलता से और जिस डिप्लोमेटिक तरीके से आपने हाउस को कंडक्ट करने में सफलता पाई, इसके लिए हम सब आपको बधाई देते हैं और ऐसी उम्मीद भी रखते हैं कि आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।

SHRI H.K. DUA (Nominated): Mr. Chairman, Sir, it has been famously said that India is a land of unity in diversity. That unity and diversity is represented in this House and the Chairman of this House symbolizes that unity in diversity, which is present in the House. As seen during the last two-and-a-half years, you have given chance to every shade of opinion that is present in the House to be expressed. If we have not succeeded in availing of that chance, the fault is ours, not yours. Even when the decibel levels were very high in the House and there were ruckus, too much noise, walkouts and attempts at disruption of the proceedings, you remained calm, and dignified with obviously the source of your inner strength. This essentially comes from the concern about the dignity of the House and concern of the values that should guide parliamentary democracy in India. All through, you have exemplified the dignity and the values of parliamentary democracy and showed your concern for its prosperity and growth of the country. On best wishes and Thank you.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Sir, it is my proud privilege to have the opportunity to congratulate you, on my behalf and on behalf of my party, All India Forward Bloc, on your assuming this great office of the Vice-President of India and Chairman of the House for the second time. I think, it has already been referred to by many of my colleagues here that you are the second distinguished person, after Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who has been elected the Vice-President for the second time. At the same time, I feel that it may be a strange case of coincidence that Dr. Radhakrishnan came from the field of education and you have also a bright background of scholarships and education. It is a strange case of coincidence that Dr. Radhakrishnan came from the Calcutta University and you come from the Aligarh University and from two ends you joined this august House to carry out another very distinguished role, which, I believe, apart from many other responsibilities, is the role of conflict management. Here, there are various shades of opinion. We come from various political parties. We try to raise our voice in support of our faith and belief. But you have the distinguished role of conflict management and you have very gloriously managed the House for five years. Again you have been entrusted with the responsibility of managing this House. At the same time, I must confess very frankly one thing. You have allowed us free access all the time. I find that it is very difficult to talk to many distinguished persons of our society, including some of our distinguished Ministers, even over the telephone. But you are very liberal to give access to us; you talk to us very frankly and freely without any vanity of the high post you are holding.

It is a very rare quality, and I am grateful to you that many a time, you have given me the access to you to express what I felt. So, I congratulate you once again, and I believe, you will give some rare opportunities in this House, particularly to the smaller parties. Parliament is, more or less, a number game. Those, who have big numbers, have the bigger say. But, the Members of the smaller parties also should have some say. I believe, you will give a new opportunity to the Members of the smaller parties to express their opinions as and when they wish to do so. Once again, I congratulate you on behalf of myself and my party.

**श्री मोहम्मद अदीब** (उत्तर प्रदेश): शुक्रिया सर। मैं आपको सर सैय्यद के ख्वाबों की ताबरी की आखिरी रोशन शम्मा समझता हूँ, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक बड़े एज़ाज़ और फ़ख़ की बात है। हज़रत, जिस साल मैं अलीगढ़ गया था, उस साल आपने आईएफएस क्वालिफ़ाई किया था और उस वक्त से आप मेरे आइडियल हैं। आप अलीगढ़ के तालिबेइल्म में रहे, वाइस चांसलर रहे और आप मुकम्मल अलीग, *secularist to the core* हैं। हम आपको बधाई और मुबारकबाद देते हैं।

सर, एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप दुबई में एम्बेसडर थे, उस

वक्त हम रोज़ी की तलाश में मिडल ईस्ट में थे और हमारी तरह न जाने ऐसे कितने लोग थे, जिनको नौकरियार नहीं मिल पा रही थीं, क्योंकि उस वक्त की जितनी कम्पनीज़ थीं, वे पाकिस्तानी-मैनेज्ड कम्पनीज़ थीं। उस वक्त हम आपके पास गये थे और आपसे कहा था कि हमको ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी-मैनेज्ड कम्पनीज़ हैं, तो आपने अपनी बसीरत से हम लोगों को एक राय दी थी कि आप लोग "अलीगढ़ ओल्ड ब्वाइज़ एसोसिएशन" बना लो। वह एसोसिएशन बनी और आपको जानकर खुशी होगी कि अब उसके हजारों मेम्बर्स हो गये हैं। हमने उन लोगों को अब बहुत पीछे छोड़ दिया, जो हमको नौकरियां नहीं देते थे। यह आपकी सोच थी और आपकी फ़िक्र थी। हम यह समझते हैं कि इस सदन में, इस हिन्दुस्तान में और बर्रैसग़ीर में आपने जो नाम रौशन किया है, उसके लिए मैं आपको और भी मुबारकवाद देता हूँ। आपका जिस इदारे से और जिस तहरीक से ताल्लुक है, हम आपको मुकम्मल अलग समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अर्थोरिटी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो बैंक बेन्चर्स हैं, हम लोगों को अगले सेशन में और उसके अगले सेशंस में भी बोलने का मौका कुछ ज्यादा दिया जाएगा। हम लोगों का ताल्लुक छोटी पार्टियों से है या हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कुछ पार्टिसिपेट करें। आपने मदद की है, लेकिन इस बार हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों की तरफ ज़रूर निगाह फरमाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

† جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : شکر یہ سر۔ میں آپ کو سر سید کے خوابوں کی تعبیر کی آخری روشن شمع سمجھتا ہوں، جو پورے سب-کوئٹینینٹ میں ایک بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ حضرت، جس سال میں علی گڑھ گیا تھا، اس سال آپ نے ائی۔ایف۔ایس۔ کوالیفائی کیا تھا اور اس وقت سے آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ آپ علی گڑھ کے طالب علم رہے، ٹیچر رہے، وائس چانسلر رہے اور آپ مکمل علیگ، secularist to the court ہیں۔ ہم آپ کو بدھانی اور مبارکباد دیتے ہیں۔

سر، ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ دوہنی میں ایمبیسٹر تھے، اس وقت ہم روزی کی تلاش میں مڈل-ایسٹ میں تھے اور ہماری طرح نہ جانے کتنے لوگ تھے، جن کو نوکریاں نہیں مل پا رہی تھیں، کیوں کہ اس وقت کی جتنی کمپنیاں تھیں، وہ پاکستانی مینیجڈ کمپنیز تھیں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس گئے تھے اور آپ سے کہا تھا کہ ہم کو یہ لوگ نوکری نہیں دے رہے ہیں، کیوں کہ یہ سب پاکستانی مینیجڈ کمپنیز ہیں، تو آپ نے اپنی بصیرت سے ہم لوگوں کو ایک رائے دی تھی کہ آپ لوگ "علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی-ایشن" بنا لو۔ وہ ایسوسی-ایشن بنی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب اس کے ہزاروں ممبرس ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اب بہت پیچھے چھوڑ دیا، جو ہم نوکریاں نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اب بہت پیچھے چھوڑ دیا، جو ہم کو نوکریاں نہیں دیتے تھے۔ یہ آپ کی سوچ تھی اور آپ کی فکر تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

اس سدن میں، ہندوستان میں اور برصغیر میں آپ سے جو نام روشن کیا ہے، اس کے لئے میں آپ کو اور بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا جین ادارے سے اور جس تحریک سے تعلق ہے، ہم آپ کو مکمل عنایت سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کا استعمال کریں گے تاکہ ہم جو بیک-بیچرس ہیں، ہم لوگوں کو اگلے سیشن میں اور اس کے اگلے سیشن میں بھی بولنے کا کچھ زیادہ موقع دیا جائے گا۔ ہم لوگوں کا تعلق چھوٹی پارٹیوں سے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ پارٹیسپیٹ کریں۔ آپ نے مدد کی ہے، لیکن اس بار ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کی طرف ضرور نگاہ فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔

**सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा** (पंजाब): थैंक्यू, सर। चैयरमैन सर, मैं आपको अपनी पार्टी और अपनी तरफ से दुसरी दफा यहां बैठने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारी तो सोच थी कि शायद आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहां आए। पिछले पांच सालों में आपने जो परम्परा डाली, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. जाकिर हुसैन की तरफ से जो परम्पराएं शुरू की गई थीं, उनको आपने जारी रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इनको वैसे ही जारी रखेंगे और खासकर **minorities** और छोटी पार्टियों का ध्यान रखेंगे।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने पिछली दफा 1984 के riots पर डिस्कशन को अलाऊ किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हमारे जो छोटे-छोटे issues हैं, चाहे वे स्टेट्स के हो या **minorities** के हों या इसी तरह से हम पर जो बीतती रहती है, उन पर आप आगे भी ध्यान देंगे। मैं एक दफा फिर आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

**SHRI M. RAMA JOIS** (Karnataka): Respected Vice-President, Sir, I express my respectful congratulations on your election as the Vice-President of the country for the second term.

As already pointed out, you have the distinction of being elected for the second term, only after Dr. Radhakrishnan. Sir, we have been seeing you for the last few years; you have been conducting this House with great dignity and discipline.

One most important thing, which comes to my mind, is that two years back, in Bangalore, we started a movement called '*Raksha Bandhan Movement*'. So many festivals conducted by several religions are confined to them, but *Raksha Bandhan* is a movement which is related to all. This movement was inaugurated by Shri M.N. Venkatachaliah, former Chief Justice of India, at Bangalore. Two messages were given throughout the country. One was for mutual love and protection, and, the second was to let patriotism be only one religion for all of us. I was very glad to receive several messages including messages from a number of Members of this House and the other House. Sir, through your message, you said that this movement was very good for national reconciliation. Everyone should work to develop the



feeling of fraternity, which is of utmost importance. We have preserved that letter, and, Sir, we have published and circulated that also.

You were so pleased to invite me to accompany you to Burma but, unfortunately, on account of my engagements, I could not join you. At the same time, I am grateful to you for your offer to accompany you to Burma.

In the end, I can tell that you have got another term to do justice to this House. Sir, you are always particular about discipline to be maintained in this House, which is of utmost importance, I wish you an astounding success in your functioning. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Ahmad Saeed Malihabadi.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिमी बंगाल): चेयरमैन सर, मैं एक आजाद मेम्बर हूँ। जो आजाद मेम्बर होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। लिहाजा मैं एक आम आदमी हूँ और हिन्दुस्तान के तमाम आम आदमियों की तरफ से मैं आपको हिन्दुस्तान का दोबारा नाइब सदरे जम्हूरियत मुन्तखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस हाउस में जिस इत्फाकराय से तमाम लोगों ने आपकी उन तमाम खूबियों और औसाफ़ की तारीफ़ की है, जिसका हम लोग गुजिश्ता कई वर्षों से यहां मुशाहिदा करते रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि आज हिन्दुस्तान की इस पार्लियामेंट के दोनों एवानों के मोअज्जिम मेम्बरान ने बहुत भारी अकसरियत से, जो हिन्दुस्तान के करोड़ों-करोड़ अवाम की नुमाइन्दगी करते हैं, आपको दोबारा मुन्तखब किया है। आपका दोबारा इन्तखाब स बात की दलील और सबूत है कि आपको जब पहली बार मुन्तखब किया गया था तो जिन लोगों ने इस दुर्रे नायाब को पहचाना था, वह जौहरी जिनकी नजर इन्तेखाब आपके ऊपर पड़ी थी और उन्होंने आपके जैसे एक मोती को निकाला था तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। जिस तरह से आपने इस हाउस को 5 वर्ष तक चलाया, जिस ओहदे जलीला पर आप फाइज़ रहे, हिन्दुस्तान के नायब सदर जम्हूरियत की हैसियत से, मैं तो उन जौहरियों के नज़रे इन्तेखाब को भी दाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यह जरूरी समझा कि इस दुर्रे नायाब को यानी इस मोती को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। यह हमारी जम्हूरियत के नगीने में एक आबदार और ताबनाक नगीना है, लिहाजा इसको यहां रहना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से, हिन्दुस्तान के तमाम आदमियों की तरफ से, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं जैसा कि मैंने अर्ज किया, आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और यह इस बात की भी मुबारकबाद है कि आपने जिस तहज़ीब, शराफ़त, शइस्तगी और इखलाक के साथ इस हाउस को चलाया है और लोगों ने आपकी सराहना की है कि आपने सबका दिल जीता है और आपके लिए सबके दिलों में एक इज्जत और मौहब्बत पैदा हुई है।

यह आपका सबसे बड़ा एज़ाज है क्योंकि लोगों के दिल जीतना सबसे बड़ी बात है। आपने लोगों का दिल जीता है। यह इत्फाकराय से पूरे हाउस ने कहा है और जो कुछ यहां कहा गया है, उसको पूरे हिंदुस्तान के लोग शेर करेंगे।

मैं आपको दोबारा तहेदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस दुआ के साथ

मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी उम्रदराज़ हो, सेहत भी बहुत अच्छी रहे और आप इस ओहदे पर पांच साल कामयाबी के साथ फराइज़ अंजाम देते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

†جناب احمد سعيد مليح آبادی (مغربی بنگال) : چیئرمین سر، میں ایک آزاد ممبر ہوں۔ جو آزاد ممبر ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ لہذا میں ایک عام آدمی ہوں اور ہندوستان کے تمام عام آدمیوں کی طرف سے میں آپ کو ہندوستان کا دوبارہ نائب صدر جمہوریہ منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج اس ہاؤس میں جس اتفاق رائے سے تمام لوگوں نے آپ کی ان تمام خوبیوں اور اوصاف کی تعریف کی ہے، جس کا ہم لوگ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہندوستان کی اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے معزز ممبران نے بہت بھاری اکثریت سے، جو ہندوستان کے کروڑ-کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ منتخب کیا ہے۔ آپ کا دوبارہ انتخاب اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ آپ کو جب پہلی بار منتخب کیا گیا تھا تو جن لوگوں نے اس راز نایاب کو پہچانا تھا، وہ جوہری جن کی نظر انتخاب آپ کے اوپر پڑی تھی اور انہوں نے آپ کے جیسے ایک موتی کو نکالا تھا تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ جس طرح سے آپ نے اس ہاؤس کو 5 سال تک چلایا، جس عہدہ جلیلہ پر آپ فائز رہے، ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے، میں تو ان جوہریوں کے نظر انتخاب کی بھی داد دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس راز نایاب یعنی اس موتی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہئے۔ یہ ہماری جمہوریت کے نگینے میں ایک ابدار اور تابناک نگینہ ہے، لہذا اس کو یہاں رہنا چاہئے۔ تو میں اپنی طرف سے، ہندوستان کے تمام عام آدمیوں کی طرف سے، کیوں کہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ اس بات کی بھی مبارکباد ہے کہ آپ نے جس تہذیب، شرافت، شائستگی، اور اخلاق کے ساتھ اس ہاؤس کو چلایا ہے اور لوگوں نے آپ کی سراہنا کی ہے کہ آپ نے سب کا دل جیتا ہے اور آپ کے لئے سب کے دلوں میں ایک عزت اور محبت پیدا ہوئی ہے۔

یہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کیوں کہ لوگوں کے دل جیتنا سب سے بڑی بات ہے۔ آپ نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ یہ اتفاق رائے سے پورے ہاؤس نے کہا ہے اور جو کچھ یہاں کہا گیا ہے۔ اس کا پورے ہندوستان کے لوگ شیئر کریں گے۔

میں آپ کو دوبارہ تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی عمر دراز ہو، صحت بھی اچھی رہے اور آپ اس عہدہ پر پانچ سال کامیابی کے ساتھ فرائض انجام دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, from my party, the Leader of the Opposition and the Deputy Leader have already spoken. I am also speaking not only on behalf of my party but I am speaking also because I found that only gentlemen are welcoming you. It should not go on record that the women Members of this House are not appreciating you. We all appreciate you. I greatly appreciate the way you have presided over the House during the last five years because I know it is both a torture and a pleasure to be sitting there. When the House is running properly, from my experience; say it is the best House. I do not want to say that the lower House is lower in any way, but the upper House is upper in every way. But when, as a privilege of the Members of Parliament, we shout, we scream—though I didn't like it when I was there in that Chair—and troop into the well, as one of the hon. Members, Mr. Yadav, has said, it is our privilege as the Members of the Opposition. But it also does not mean that we want any disrespect to you. We want to express our opinions. Today, whatever everybody has said, I endorse that because I don't want to take too much time of yours. But I would say one thing. I think it is a privilege to be a major political party. I am sorry for the minor political parties who are asking for a claim on more time in the House. But, Sir, it should not mean—we don't mind sitting longer hours—that this quota of ours is reduced and given to the other smaller parties. I will appreciate all the smaller parties to work hard in the field and get more Members in the House so that they get more share of the time for speaking. *..(Interruptions)..* And, Sir, now he has reminded me of the quota. Why there was hardly any woman Member visible to speak today is because we are so few in number. I hope in this second five-year term of yours in this House, you would compel on the hon. Prime Minister, or, impel on the hon. Prime Minister to get the 33 per cent reservation so that the next time when you are elected, there will be more women to speak for you. Thank you.

श्री के० रहमान खान (कर्णाटक): इज्जतमआब चेयरमैन साहब, मैं अपने दूसरे साथियों के साथ इस आला ओहदे पर दोबारा मुन्तख़ब होने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी सरपरस्ती मैं पांच साल इस हाउस का डिप्टी-चेयरमैन रहने का मुझे अल्लाह ने मौका अता किया। मैंने आपको नजदीक से देखा है। आपकी इस हाउस के बारे में ऊंची सोच है और इस हाउस की गरिमा को ऊंचा रखने में मैंने आप में बहुत concern देखी है। आपने इस हाउस को और इस हाउस की supremacy को बरकरार रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहां तक कि इस हाउस में ऐसे मौके आए, जोकि बहुत की मुश्किल मौके थे..उस वक्त पर भी आपने जो चेयर की जिम्मेदारी रहती है, वही निभाई है, किसी कंपलेशन में आकर आज तक आपने कोई डिस्मिशन नहीं किया है। आपकी यह सबसे बड़ी कामयाबी है। कभी-कभी आप डिबेट्स को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि हर मेम्बर से आप यह कहते हैं कि आपको जो भी कहना है, हाउस में कहिए, डिबेट के जरिए से कहिए, हाउस को कभी डिस्टर्ब मत किजिए।